



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-12.11.2022

थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त अनुज उर्फ बाबू सरोज गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं.-393/2022 धारा 147/148/149/307/302/504/506/34 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त अनुज उर्फ बाबू सरोज पुत्र स्व0 राजेन्द्र सरोज उर्फ कचालू निवासी म.न. सी 33/222 चंदुआ छित्तपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी को रोडवेज बस स्टैण्ड कैन्ट ओवरब्रीज के नीचे पेट्रोल पम्प के सामने से आज दिनांक-12.11.22 को समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशांदाही पर आलाकत्ल डण्डा बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक 12.10.22 को सिगरा थाना क्षेत्र के जय प्रकाश नगर कालोनी अन्तर्गत शराब पीकर हंगामा करने कर रहे लोगों को मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी श्री रुद्रेश कुमार सिंह के पिता श्री पशुपति नाथ सिंह व भाई श्री राजकुमार सिंह पर लाठी डंडा व राड से जानलेवा हमला कर दिया गया जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गयी तथा भाई घायल हो गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिगरा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा सम्पादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनुज उर्फ बाबू सरोज पुत्र स्व० राजेन्द्र सरोज उर्फ कचालू निवासी म.न. सी 33/222 चंदुआ छित्तपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- आला कत्ल एक अदद डण्डा बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2-उ०नि० मो० आरिफ खान थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3-का० सुमित साहू थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4-का० अमित कुमार यादव थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5-का० युवराज सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 6-का० पंकज यादव थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 7-चालक हे०का० कृष्णानन्द राय थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट

वाराणसी